

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

## Public Relations Office

### Workshop on Feed the Growing India with the Goodness of Pearl Millet Products (Valedictory Session)

Newspaper: Amar Ujala

Date: 08-01-2022

## बाजरे से बने खाद्य उत्पादों पर आयोजित कार्यशाला का समापन



हकेंवि में पांच दिवसीय कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र देते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार। संवाद

महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य उत्पादों के विकास में जुटी महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण, उनके प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक बिजनेस मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला में क्षेत्र की 30 महिलाओं ने हिस्सा लिया।

फीड द ग्रोइंग इंडिया विद द गुडनेस ऑफ बाजरा प्रोडक्ट्स पर केंद्रित इस कार्यशाला के समापन पर कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस कार्यशाला के समापन के साथ एक नई शुरुआत हुई है और आशा है कि यहां अर्जित प्रशिक्षण का लाभ प्रतिभागी अपने कार्यक्षेत्र में उठाएंगे।

कुलपति ने कहा कि विज्ञान भारती हरियाणा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइंस फॉर इक्विटी, एंपावरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) के साझा प्रयासों से

प्रतिभागियों को दिए प्रमाण पत्र कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. सविता बुधवार ने बताया कि कार्यशाला के अंतर्गत करीब 30 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और समापन सत्र में उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के सहसंयोजक प्रो. सुनील कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में विश्वविद्यालय शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार, शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान भी उपस्थित रहीं।

आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं लाभान्वित होंगी।

विज्ञान भारती हरियाणा की उपाध्यक्ष प्रो. सुनीता श्रीवास्तव ने भारतीय खाद्यान्नों की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से पोषक खाद्यान्नों के प्रचार-प्रसार में मदद मिलेगी। संवाद

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

## Public Relations Office

Newspaper: Dainik Bhaskar

Date: 08-01-2022

**कार्यक्रम** • केंद्रीय विवि में आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला में 30 महिलाओं को किया प्रशिक्षित

## बाजरे के खाद्य उत्पादों पर आधारित कार्यशाला का हुआ समापन, वीसी बोले- प्रशिक्षण के प्रयोग से मिलेगा लाभ

भास्कर न्यूज़ | महेंद्रगढ़

हकेवि, महेंद्रगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य उत्पादों के विकास में जुटी महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण व उनके प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक बिजनेस मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। फीड द ग्रीन्स इंडिया विद द गुडनेस ऑफ बाजरा प्रोडक्ट्स पर केंद्रित इस कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस कार्यशाला के समापन के साथ एक नई शुरुआत हुई है और मुझे आशा है कि यहां अर्जित प्रशिक्षण



का लाभ प्रतिभागी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उठाएंगे। कुलपति ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा विज्ञान भारती हरियाणा व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइंस फोर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) के साझा प्रयासों

से आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं लाभान्वित होंगी। कार्यक्रम में उपस्थित विज्ञान भारती हरियाणा की उपाध्यक्ष प्रो. सुनीता श्रीवास्तव ने भारतीय खाद्यान्नों की उपयोगिता का उल्लेख करते

पांच दिवसीय कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार।

हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से पोषक खाद्यान्नों के प्रचार-प्रसार में मदद मिलेगी। कार्यक्रम की संयोजिका डॉ. सविता बुधवार ने बताया कि सीड के सहयोग से आयोजित इस पांच दिवसीय इस कार्यशाला के अंतर्गत करीब 30 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और समापन सत्र में उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के सह-संयोजक प्रो. सुनील कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में विश्वविद्यालय शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार व शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान भी उपस्थित रहें।

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

## Public Relations Office

Newspaper: Dainik Jagran

Date: 08-01-2022

## हकेंवि में बाजरे से बने खाद्य उत्पादों पर कार्यशाला संपन्न



पांच दिवसीय कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार • जागरण

संवाद सहयोगी, महेंद्रगढ़ : हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य उत्पादों के विकास में जुटी महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण व उनके प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक बिजनेस माडल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। फ्रीड द ग्रोइंग इंडिया विद द गुडनेस ऑफ बाजरा प्रोडक्ट्स पर केंद्रित कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस कार्यशाला के समापन के साथ एक नई शुरुआत हुई है। कुलपति ने समापन सत्र में कहा विज्ञान भारती हरियाणा व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइंस फोर

इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) के साझा प्रयासों से आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं लाभान्वित होंगी। कार्यक्रम में उपस्थित विज्ञान भारती हरियाणा की उपाध्यक्ष प्रो. सुनीता श्रीवास्तव ने भारतीय खाद्यान्नों की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से पोषक खाद्यान्नों के प्रचार-प्रसार में मदद मिलेगी। संयोजिका डा. सविता बुधवार ने बताया कि सीड के सहयोग से आयोजित इस पांच दिवसीय इस कार्यशाला के अंतर्गत करीब तीस महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और समापन सत्र में प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

Public Relations Office

Newspaper: Haribhoomi

Date: 08-01-2022

## हकेवि में बाजरे से बने उत्पादों पर कार्यशाला

महेंद्रगढ़। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य उत्पादों के विकास में जुटी महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण व उनके प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक बिजनेस मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित पांच दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार को सम्पन्न हुई। कार्यशाला को कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने संबोधित किया।

# Central University of Haryana

NAAC Accredited 'A' Grade University

## Public Relations Office

Newspaper: NCR Haryana

Date: 08-01-2022

## हकेवि में बाजरे से बने खाद्य उत्पादों पर आयोजित कार्यशाला का हुआ समापन

### -कुलपति बोले प्रशिक्षण के प्रयोग से मिलेगा लाभ

महेंद्रगढ़, एनसीआर हरियाणा,  
(प्रदीप बालरोडिया)

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय (हकेवि), महेंद्रगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य उत्पादों के विकास में जुटी महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण व उनके प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक विज्ञानस मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित पाँच दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। फीड द ग्रींस इंडिया विद द गुडनेस ऑफ बाजरा प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित इस कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस



कार्यशाला के समापन के साथ एक नई शुरुआत हुई है और मुझे आशा

है कि यहाँ अर्जित प्रशिक्षण का लाभ प्रतिभागी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में

उठावेंगे। कुलपति ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा विज्ञान

भारती हरियाणा व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइंस फोर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (सीड) के साझा प्रयासों से आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं लाभान्वित होंगी। कार्यक्रम में उपस्थित विज्ञान भारती हरियाणा की उपाध्यक्ष प्रो. सुनीता श्रीवास्तव ने भारतीय खाद्यान्नों की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से पोषक खाद्यान्नों के प्रचार-प्रसार में मदद मिलेगी। कार्यक्रम की

संयोजिका डॉ. सविता बुधवार ने बताया कि सीड के सहयोग से आयोजित इस पाँच दिवसीय इस कार्यशाला के अंतर्गत करीब तीस महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और समापन सत्र में उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के सह-संयोजक प्रो. सुनील कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में विश्वविद्यालय शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार व शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान भी उपस्थित रहें।

# हकेंवि में बाजरे से बने खाद्य उत्पादों पर आयोजित **कार्यशाला** सम्पन्न

## ■ प्रशिक्षण के प्रयोग से मिलेगा लाभ: कुलपति

महेंद्रगढ़, 7 जनवरी (परमजीत, मोहन): हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य उत्पादों के विकास में जुटी महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण व उनके प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक बिजनेस मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ।

फीड द ग्राइंग इंडिया विद द गुडनैस ऑफ बाजरा प्रोडक्ट्स पर केंद्रित इस कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस कार्यशाला के समापन के साथ एक नई शुरुआत हुई है और मुझे आशा है कि यहां अर्जित प्रशिक्षण का लाभ प्रतिभागी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उठाएंगे।

कुलपति ने समापन सत्र को



कार्यशाला के समापन पर प्रतिभाग को प्रमाण पत्र देते कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार, साथ हैं अन्य।

संबोधित करते हुए कहा विज्ञान भारती हरियाणा व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साइंस फोर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डिवैल्पमेंट (सीड) के सांझा प्रयासों से आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं लाभांविता होंगी।

कार्यक्रम में उपस्थित विज्ञान भारती हरियाणा की उपाध्यक्ष प्रो. सुनीता श्रीवास्तव ने भारतीय खाद्यान्नों की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से पोषक खाद्यान्नों के प्रचार-प्रसार में

मदद मिलेगी। कार्यक्रम की संयोजिका डा. सविता बुधवार ने बताया कि सीड के सहयोग से आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत करीब 30 महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया और समापन सत्र में उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के सह-संयोजक प्रो. सुनील कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के समापन सत्र में विश्वविद्यालय शैक्षणिक अधिष्ठाता प्रो. दिनेश कुमार व शोध अधिष्ठाता प्रो. नीलम सांगवान भी उपस्थित रहें।